

# चौहान, श्री शिवराज सिंह

भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र- बुधनी(156)



पिता का नाम-

श्री प्रेम सिंह चौहान

जन्म तिथि-

05 मार्च, 1959

जन्म स्थान-

ग्राम-जैत, जिला-सीहोर

वैवाहिक स्थिति-

विवाहित

पत्नी-

श्रीमती साधना सिंह चौहान

संतान-

2 पुत्र

शैक्षणिक योग्यता-

एम.ए.

व्यवसाय-

कृषि

अभिरुचि-

संगीत, आध्यात्मिक साहित्य, भ्रमण

स्थायी पता-

ग्राम जैत, तह.-बुधनी, जिला-सीहोर (म.प्र.) ई-मेल-  
shivraj.chouhan@mpvidhansabha.nic.in

स्थानीय पता-

6, ६्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.) दूरभाष-(का.) (0755)  
2441581, 2441033 (नि.) 2442231, 2442241

## सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम-

1972 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक. 1975 में मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष. आपातकाल के विरुद्ध भ्रमिगत आंदोलन में भाग लिया और 1976 में भोपाल जेल में तथा अन्य अवसरों पर राजनैतिक आंदोलनों के दौरान निरुद्ध रहे. 1977-78 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भोपाल के संगठन सचिव, 1978-80 में ए.बी.वी.पी. मध्यप्रदेश के संयुक्त सचिव एवं 1980-82 में इसके प्रदेश मंत्री. 1982-83 में ए.बी.वी.पी. की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य. 1984-85 में भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्यप्रदेश के संयुक्त सचिव, 1985-88 में महासचिव एवं 1988-91 में इसके अध्यक्ष. 1990 में नौवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित एवं 23 नवंबर, 1991 को सदस्यता से त्याग पत्र. 1991 में दसवीं लोक सभा के सदस्य निर्वाचित. 1991-92 में अखिल भारतीय केसरिया वाहिनी के संयोजक. 1992 से अखिल भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव. 1992-94 में भा.ज.पा. मध्यप्रदेश के महासचिव. 1992-96 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, 1993-96 में श्रम और कल्याण संबंधी समिति, 1994-96 में हिन्दी सलाहकार समिति एवं 1995-96 में सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य. 1996 में न्यारहवीं लोक सभा के सदस्य निर्वाचित. 1996-97 में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य. 1997-98 में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सदस्य और भा.ज.पा. मध्यप्रदेश के महासचिव. 1998 में बारहवीं लोक सभा के सदस्य निर्वाचित. 1998-99 में प्राक्कलन समिति, शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय संबंधी इसकी उप समिति-टो एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य. 1999 में तेरहवीं लोक सभा के सदस्य निर्वाचित. 1999-2000 में कृषि संबंधी समिति, 1999-2000 और 2000-2001 में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं 2000 से संचार मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य. 2002 में भा.ज.पा. के राष्ट्रीय सचिव. 2003 में भा.ज.पा. के राष्ट्रीय महासचिव. 2004 में चौदहवीं लोक सभा के सदस्य (पांचवीं बार) निर्वाचित. मई, 2005 से भा.ज.पा. मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष. 29 नवंबर, 2005 को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की. 6 मई, 2006 को ३पचुनाव में बारहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित. 10 मई, 2006 को लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र. विधान सभा सदस्य के रूप में 12 मई, 2006 को शपथ ग्रहण की. 10 दिसम्बर, 2008 तक मुख्यमंत्री रहे. सन् 2008 में तेरहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित एवं 12 दिसम्बर, 2008 से 10 दिसम्बर, 2013 तक मुख्यमंत्री रहे.

सन् 2013 में चौथी बार बुधनी तथा विदिशा दो विधान सभा क्षेत्रों से सदस्य निर्वाचित. दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को विदिशा सीट से त्यागपत्र.

सम्प्रति: दिनांक 14 दिसम्बर, 2013 से मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश.